

Tijaria Polypipes Limited



Date: 03rd September, 2021

To,
BSE Limited,
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400001
Scrip Code: 533629

To,
National Stock Exchange of India Limited,
Listing Department,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Mumbai-400051
NSE Symbol: TIJARIA

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, attached herewith are copies of the newspaper advertisements in respect of the notice of 15th Annual General Meeting of the Company, scheduled to be held on Wednesday, September 29, 2021 at 11.30 A.M., published in the following newspapers on Friday, September 03, 2021:

- Hindustan Mint (English Language Daily Newspaper – Delhi Edition) and
- Business Remedies (Hindi Language Daily Newspaper – Jaipur Edition).

Submitted for your kind reference and records.

Thanking you,
Yours faithfully,

For Tijaria Polypipes Limited,


Ankita Khandelwal
Company Secretary
Membership No. A50855

PIPING SOLUTIONS

Correspondence Office:

A-130 (H), Road No. 9-D, Vishwakarma Industrial Area
Jaipur-302013 (Raj.) India
Tel : 0141-2333722
E-mail: info@tijaria-pipes.com

Regd. Office / Works:

SP-1-2316, RIICO Industrial Area
Ramchandrapura, Sitapura Extn.
Jaipur-302022 (Raj.) India.
CIN - L25209RJ2006PLC022828

Sequoia top investor in Hurun's unicorn list

India produced 25 unicorns so far compared to 11 last year, the report said

Joseph Rai
joseph.r@livemint.com
NEW DELHI

Sequoia Capital India, one of the most prolific investors in the country, has the most number of companies in its portfolio that have the potential to become unicorns as early as 2023 or at least in the next four years, according to a Hurun India Future Unicorn List 2021.

A startup founded in the 2000s that has reached a valuation of less than \$1 billion and greater than \$200 million, but has yet to list on a public exchange, has been considered for the list. There are 86 such startups in India, according to the list.

The list further categorized startups with a valuation of \$200-\$500 million as Cheetahs and those with \$500 million and less than \$1 billion as Gazelles. There are 32 Gazelles and 54 Cheetahs with online retail store Zilingo the most valuable Gazelle and online furniture platform Pepperfry the most valuable Cheetah. These startups have raised \$12.1 billion in funding from more than 300 investors so far.

With 37 startups, Sequoia is the leading investor in the list. Startups with Sequoia as an investor include Zilingo, gaming startup Mobile Premier League, internet kitchen platform Rebel Foods, consumer goods brand Mamaearth and digital payments firm Mobikwik. Startups with Sequoia as an investor are also listed as the top 10 on Hurun's list of future unicorns. The local arm of the Menlo Park-based firm has been the most active investor in India by deal volume, retaining its pole position in the first half of this year as well, according to an analysis done by VCCircle.

Sequoia was followed by US-based Tiger Global Management with 18 investments including pre-owned cars platform Spinny,



The local arm of the Menlo Park-based Sequoia Capital has been the most active investor in India by deal volume, said the Hurun India Future Unicorn List 2021. GETTY

also featured among the top 10 future unicorns in the list.

Tiger Global, an early backer in Flipkart, has been super aggressive in its investments in India this year, creating unicorns in the process. In the first half of 2021, Tiger Global made 20 bets in India, equiva-

alone saw investors building eight unicorns.

This means that India is home to the third-highest unicorns globally after the US and China who have 396 and 277 unicorns respectively. India, whose unicorns are now worth over \$168 billion, is followed by the UK and Germany with 32 and 18, respectively.

The Hurun report said e-commerce, fintech and software-as-a-service (SaaS) comprised 49% of India's future unicorns. It also said that the average age of founders was 39 years. And at 25, the founders of gaming start-up Zupe, Dilsher Singh and Siddhant Saubrah, are the youngest in the list. The oldest startup co-founder in the list is K. Satyanarayana of Ecom Express. A total of 15 startup co-founders are above the age of 50.

The report also said that only a dozen startups on the list are co-founded by women entrepreneurs.

VCCIRCLE

INDIA added three unicorns each month over the last year. Last month itself saw 8 unicorns

UNICORN BOOM

E-COMMERCE, fintech and SaaS comprised 49% of India's future unicorns

ONLY a dozen startups on the Hurun list are co-founded by women entrepreneurs

lent to what it did in 2020.

The future unicorn list gains significance as India has produced unicorns at a breakneck speed this year, having already produced 25 unicorns so far compared to just 11 last year. India added three unicorns every month over the last year. Last month

Second covid wave had a muted impact on residential real estate business: Icr

Madhurima Nandy
madhurima.n@livemint.com
BENGALURU

The second covid wave had a lower impact on the residential realty sector, while the increased focus on vaccination and reopening of the economy will help home sales recover to pre-covid levels in the short to medium term, rating agency Icr said in a note on Thursday.

In the June quarter, sales of residential real estate in the top eight cities fell 19% to 68.5 million sq. ft from 84.7 million sq. ft in the March quarter. The sequential drop was on a high base, as the fourth quarter of FY21 had witnessed the second highest sales since FY12.

However, sales more than doubled compared to the 33.7 million sq. ft in the June quarter of the previous year.

According to Icr, despite the disruption in the March quarter, demand remained intact, driven by multi-year low interest rates, preference for bigger and better homes following the shift to a hybrid



Residential real estate demand remained intact, driven by multi-year low interest rates and a preference for bigger houses. MINT

working model and pent-up demand.

"The impact of the second wave was lower than the first wave due to various factors, including the continuing trend of working from home by salaried employees, localized lockdown restrictions and a higher degree of certainty regarding future income levels and stability. The IT-ITeS sector witnessed robust financial performance with increased hiring, which supported the demand from employees of

the sectors," said Kapil Banga, sector head and assistant vice-president, Icr.

Homebuyers are looking at ready-to-move-in units from developers with a track record of on-time and quality project completion, Icr said. This has also led to the increased market share of the top nine listed realty players, from 6% of sales in FY17 to over 16% in FY21.

The long-term trend of consolidation, which has been a result of evolving consumer preferences as well as a sus-

tained increase in market share of large developers among recent launches, is likely to continue and will support further improvement in the market share of larger and stronger developers.

With construction impacted to some extent and decline in sales for the top nine listed players, collections also got hit, registering a drop of 27% quarter-on-quarter.

Further, extension in RERA timelines in certain states by six to nine months along with a reduction in approval costs/construction premiums provided by certain states for a limited period has provided flexibility to defer outflows in case of collection weakness.

Thus, notwithstanding the moderation in collections, the cash flow from operations for larger developers have not witnessed a steep decline.

However, a shrinking market share and cautious lending approach by NBFs and HFCs may create a challenging operating and financing environment for small real estate developers in the near term.

'State's fiscal balances remain weak in Q1'

Staff Writer
feedback@livemint.com
MUMBAI

The combined revenue balance of 19 states deteriorated in the June quarter to a deficit of ₹50,000 crore, compared to a surplus of ₹10,000 crore in the year-ago quarter, primarily due to the varied recovery in revenues and expenditures of state governments, rating agency Icr said on Thursday.

Aditi Nayar, chief economist, Icr Ltd, said fiscal data

reported by the Comptroller and Auditor General for the states reveals that their com-

combined revenue receipts in Q1 FY22 were only 2% higher than the pre-covid level of ₹4.3 trillion. The recovery in receipts was led by non-tax revenues, even as own taxes and central tax devolution trailed the level witnessed in Q1FY20, she said.

"Simultaneously, the revenue spending of the 19 state governments increased by a

sharper 14% to ₹4.9 trillion in Q1FY22 from the pre-covid level of ₹4.3 trillion, possibly reflecting higher social sector spending amid the second wave of covid-19.

Given the per-

mission to continue construction activities with some restrictions, capital spending

by the 19 state governments recovered to ₹0.6 trillion in Q1FY22, exceeding the pre-pandemic level of Q1FY20 by a heartening, albeit mild 2.6%," added Nayar.

The combined revenue balance of the 19 states slipped into a deficit of ₹0.5 trillion in Q1FY22, in contrast to the small surplus of ₹0.1 trillion in Q1FY20. Moreover, their fiscal deficit has nearly doubled to ₹1.1 trillion in Q1FY22 from the pre-covid level of ₹0.6 trillion in Q1FY20, she said.

ncrtc NATIONAL CAPITAL REGION TRANSPORT CORPORATION LTD.
(A JV of Govt. of India and participating State Governments)

E-TENDER NOTICE Tender ID : 2021_NCRTC_96678_1

Online Bids are invited for "Shifting of Telecom Utilities from Ch.64770 to Ch.65800 in Meerut for Delhi - Ghaziabad - Meerut RRTS Corridor"

For detailed information and subsequent addendum/corrigendum (if any), please visit NCRTC website www.ncrtc.in or CPP Portal www.etenders.gov.in in procedure/app on 03.09.2021 to 24.09.2021 (upto 1500 hrs). Sd/- CPM/Meerut

GUJARAT METRO RAIL CORPORATION (GMRC) LIMITED
(SPV of Govt. of India and Govt. of Gujarat)

Block No.1, First Floor, Karmayogi Bhavan, Behind Nirman Bhavan, Sector 10/A, Gandhinagar, 382010, Gujarat, India
(CIN: U60200GJ2010SGC059407)

TENDER NOTIFICATION NO: GMRC/Signage/STNS/NS-PK2&PK4B/PH-1/2021
Date : 03.09.2021

E-Tenders are invited from reputed and experienced Contractors for the following tender:

Tender Name	Tender Fees
Design, Manufacture, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Signage and Graphics for Eleven Elevated Stations (Pkg-2: Paldi, Gandhinagar, Old High Court (Interchange), Usmanpura, Vijayanagar, Vadaj & Pkg-4B: Ranip, Sabarmati Railway Station, AEC, Sabarmati Metro Station & Motera Stadium) on North-south Corridor of Ahmedabad Metro Rail Phase-1	INR 25,000/-

Interested bidders are requested to visit <https://gmrc.nprocure.com> for eligibility criteria, applying / downloading the tender document. Last date and time for Bid Submissions is 15:00 Hrs. on 13.10.2021.

Any alterations in Eligibility Criteria cum Qualification Requirements, and terms of the Tender Document, or any amendment to the Tender Document, etc, will be uploaded on <https://gmrc.nprocure.com> and GMRC's Website www.gujaratmetrorail.com without any obligation or press notification or other proclamation. Sd/- Managing Director, GMRC, Gandhinagar

New Okhla Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida, (U.P.)
Website : www.noidaauthorityonline.com

E-TENDER NOTICE

E-Tenders are invited from firms/contractors registered with UPLC Lucknow for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened/downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's official website: www.noidaauthorityonline.com & <http://etender.up.nic.in> Please ensure to see these website for any changes/amendments & corrigendum etc.

(A) 1. 17/GM/SM(WC-6)/2021-22, Name of Work- D/o 60m wide road from Sector-115, 112 Hindon Pusta to Sector-1 Takejon-4 Greater Noida Bishrakh road Hindon Bridge (Balance Work), Noida. Cost - Rs. 1470.56 Lacs

Which can be uploaded by date 13.09.2021 upto 5.00PM. Pre-qualification shall be opened/downloaded on date 14.09.2021 at 11.00AM.

General Manager
NOIDA
CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

New Okhla Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida, (U.P.)
Website : www.noidaauthorityonline.com

E-TENDER NOTICE

E-Tenders are invited from eligible contractors/firms for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened / downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's official website: www.noidaauthorityonline.com & <http://etender.up.nic.in> Please ensure to see these websites for any changes/ amendments & corrigendum etc.

1	11/SPE/PE (PH-02)/2021-22	Integrated Mechanical and Manual Sweeping of various main roads of PH-II area Length 75.00 km in Noida. (Part-A)	Rs.23.11 Crore
2	12/SPE/PE (PH-02)/2021-22	Integrated Mechanical and Manual Sweeping of various main roads of PH-II area Length 75.00 km in Noida. (Part-B)	Rs.23.11 Crore

The above Tenders can be uploaded by date 09.09.2021 upto 5.00 PM. Pre-qualification shall be opened / downloaded on date 10.09.2021 at 11.00 AM.

Office: Sector-39
Sr. Project Engineer (Public Health), NOIDA
CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

TIJARIA POLYPIPES LIMITED
CIN: L25209RJ2006PLC022828
Regd. Office: SP-1-2316, RIICO Industrial Area, Ramchandrapura, Sitapura Extension, Jaipur-302022
Telefax. No. 91-0141-2333722. Email: investors@tijaria-pipes.com. Website: www.tijaria-pipes.com

NOTICE OF THE 15th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS AND SHARE TRANSFER BOOKS

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the members of the company will be held on Wednesday 29th September 2021 at 11:30 AM at the Registered office SP-1-2316 RIICO Industrial Area, Ramchandrapura, Sitapura Extn., Jaipur, Rajasthan 302022, to transact the business as set out in the Notice dated 02nd September 2021; the said Notice of AGM has been sent to the members. The notice of the said AGM is available on website of the company www.tijaria-pipes.com and websites of exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com

Pursuant to section 108 of the companies Act 2013 and the relevant rules framed there under, as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulation, 2015 the members are provided with the facility to cast their vote electronically through remote e-voting on resolutions set forth in the Notice of the AGM. The Remote E-voting period will commence on Sunday, September 26, 2021 (10.00A.M.) and will end on Tuesday, September 28, 2021 (5.00 PM), after which remote e-voting shall not be allowed.

The Register of member and Share Transfer books of the Company shall remain closed from Thursday, September 23, 2021 to Wednesday, September 29, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

A person, whose name appears in the register of Members/Beneficial owners as on the cut-off date September 22, 2021 only will be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at AGM. Any person, who acquires the share and have become member of the company after dispatch the notice and holding share on the cut-off date, can obtain their log-in ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investors@tijaria-pipes.com.

For Tijaria Polypipes Limited
(Ankita Khandelwal)
Company Secretary

Place: Jaipur
Dated: 02.09.2021

mint

THE BIGGEST EVENT IN INDIA'S ENERGY SECTOR IS BACK

ENERGYSCAPE
mint ENERGY CONCLAVE

17 SEP 2021 | 6:00 PM ONWARDS
NEW DELHI | A PHYGITAL EVENT

Keynote address by
Mr. Raj Kumar Singh
Hon'ble Union Cabinet Minister,
Power, New & Renewable Energy

AGENDA

PANEL 1:
India's green energy transition and push for energy security

PANEL 2:
India's next-generation power sector reforms

#MintEnergyscape

www.livemint.com

Associate Sponsor **TRILEGAL**

mint.live livemint livemint live_mint

Register Now

सेंसेक्स 514 अंक बढ़कर 57852 के स्तर पर हुआ बंद



मुंबई। एक दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में फिर तेजी लौट आई। बीएसई सेंसेक्स बुधवार को 514 अंक उछलकर नये रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ। सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाले टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचयूएल में तेजी से बाजार को मजबूती मिली। एनएसई निपटी भी 17,200 के ऊपर नई ऊंचाई पर बंद हुआ। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स

514.33 अंक यानी 0.90 प्रतिशत की बढ़त के साथ 57,852.54 अंक के रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निपटी भी 157.90 अंक यानी 0.92 प्रतिशत चढ़कर 17,234.15 अंक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ सर्वाधिक लाभ में टीसीएस का शेयर रहा। उसके बाद एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ते इंडिया, कोटक

कोरोना महामारी, पृष्ठ 1 का शेष...

कोरोना महामारी में क्या आपने जरूरतमंदों व गरीबों की मदद की? चित्रेश कॉथेर: हमने सोशल साइट के जरिए समाजसेवी ग्रुप में पेटीएम के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा अपने स्टाफ को पूरा वेहन दिया, किसी की भी छंटनी नहीं की।

कारोबार में क्या दिक्कत आ रही है?

चित्रेश कॉथेर: व्यवसाय में अभी पैमेंट की दिक्कतें आ रही हैं। कई पुराने पैमेंट अटके पड़े हैं और माल भी वापिस हो रहा है। पहले जहां पैमेंट आने में 50 से 60दिन लग जाते थे, अब 90 से ज्यादा दिन लग रहे हैं, इससे रेटेशन पूरी तरह से गड़बड़ गया है। उम्मीद है आने वाले समय में इसमें सुधार हो सके।

वर्तमान परिस्थितियों में सुधार के लिए आप सरकार से क्या सहयोग चाहते हैं?

चित्रेश कॉथेर: सरकार छोटे और मझौले उद्योग धंधों को पैकेज देकर प्रोत्साहित भी कर रही है। इसके अलावा वैकसीनेशन भी निशुल्क करवाकर लोगों को राहत प्रदान की जा रही है। मेरा मानना तो यही है सरकार अपनी तरफ से उद्यमियों हर तरह से राहत दे रही है। बिजली की दरों और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी कर सरकार उद्यमियों को राहत दे तो और भी अच्छा रहेगा। जहां अभी चाइना से कई चीजों की सप्लाई बंद होने से भारत की इंडस्ट्री में ग्रेट लेबल पहले से बढ़ा है, मैनुफेक्चरिंग होने लगी है। इससे रोजगार में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

बीएसई के शेयरों में दर्ज तेजी व गिरावट

Gainers- Group Wise

Table with columns: Security Name, LTP, % Chg. Lists top gainers like TINPLATE, ALEMBICLTD, IDEA, LAOPALA, etc.

Losers- Group Wise

Table with columns: Security Name, LTP, % Chg. Lists top losers like PILANIINVS, BANKINDIA, APTECH, CERA, VGUARD, etc.

महिंद्रा फाइनेंस को मांग में जबरदस्त उछाल की उम्मीद, त्योहारी सीजन में कंपनी की ग्रोथ को मिलेगा बूस्ट

मुंबई। महिंद्रा समूह का एक हिस्सा और ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्र पर केंद्रित भारत की एक प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी महिंद्रा फाइनेंस को उम्मीद है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष ऋण वितरण अधिक होगा। कंपनी को ऑटो ऋण, ट्रैक्टर, पूर्व स्वामित्व वाले वाहनों की मांग बढ़ने का अनुमान है। महिंद्रा फाइनेंस को उम्मीद है कि ऋण का वितरण अधिक होगा जबकि एनपीए (गैर-निष्पादित परिस्पतियां) में गिरावट आएगी। महिंद्रा फाइनेंस के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश अय्यर ने कहा- 'इस महामारी के दौरान भी, हमने बहुत अधिक कैसिलेशन नहीं देखा, लेकिन डीलरशिप बंद थी। जून में खुलने के साथ, हमने वॉल्यूम में तेजी देखी और यह जुलाई में भी जारी रहा। आम तौर पर जुलाई और अगस्त वाहन खरीदने के लिए अच्छे महीने नहीं होते हैं क्योंकि लोग त्योहारों के मौसम का इंतजार करते हैं।



हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही से दबी हुई मांग सामने आ सकती है। हमें उम्मीद है कि कोई गंभीर तीसरी लहर नहीं आई तो अच्छे मानसून के साथ सितंबर और अक्टूबर दोनों में अच्छी मांग हो सकती है। खासकर, बुनियादी ढांचे के काम में तेजी आने के कारण। ग्रामीणों के बीच में यह उत्साह की बड़ी वजह हो सकती है, जिसका हम विकास की नई कहानी लिख सकते हैं।' जुलाई 2021 के महीने के दौरान, महिंद्रा फाइनेंस ने सामान्य स्थिति लौटने के साथ मैक्रो सेटीमेंट को सकारात्मक रूप से बदलते देखा। महीने के दौरान ऋण का संवितरण 2,400 करोड़ रुपए रहा जो जुलाई 2020 के एक छोटे आधार पर दोगुने से अधिक था।

फैशन ब्रांड नंदनी क्रिएशन लिमिटेड एनएसई इमर्ज से एनएसई के मुख्य बोर्ड में माइग्रेट हुई



जयपुर। भारत की लीडिंग टेक्सटाइल कंपनी, नंदनी क्रिएशन लिमिटेड, जिसे बाजार में 'जयपुर कुर्ती डॉट कॉम' के नाम से जाना जाता है, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर एनएसई इमर्ज से एनएसई के मुख्य बोर्ड में माइग्रेट होने की घोषणा की। कंपनी ने कहा कि सितंबर 2021 का महीना नंदनी क्रिएशन लिमिटेड और उसके निवेशकों के लिए बहुत खास है। एनएसई इमर्ज से एनएसई के मुख्य बोर्ड में माइग्रेट होने की घोषणा के बारे में अधिक जानकारी देते हुए, नंदनी क्रिएशन लिमिटेड ने बताया कि कंपनी को 10,033,950 इक्विटी शेयर्स के माइग्रेशन के लिए 31.08.2021 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से मंजूरी मिल गई है। एनएसई-एसएमई प्लेटफॉर्म से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य बोर्ड में शेयर 02.09.2021 से लिस्ट हो गई। बीते महीने में कंपनी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए एनएसई पर अपने सिंबल को एनएसई पर 'नंदनी' से 'जयपुर कुर्ती' कर दिया था। साथ ही, नंदनी क्रिएशन लिमिटेड ने निवेश, ऑफलाइन एक्सपेंशन, रिटेल स्टोर प्लान और हार्वरिंग के

बारे में अपनी योजनाओं घोषणा की थी। नंदनी क्रिएशन लिमिटेड ने हाल ही में, अपने वित्त वर्ष 2021 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की थी, जहां वित्त वर्ष 2021 के लिए एनएसई इमर्ज से एनएसई के मुख्य बोर्ड में माइग्रेट होने की घोषणा की। कंपनी का वित्त वर्ष 2021 में रु 74 लाख रहा था। कंपनी का वित्त वर्ष 2021 में सेल्स टर्नओवर रु 46.09 करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2020 में रु 43.73 करोड़ था। महत्वपूर्ण घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, नंदनी क्रिएशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, अनुज मुंघडा ने कहा, 'हमें यह घोषणा करते हुए बहुत गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि हम एनएसई के मुख्य बोर्ड में माइग्रेट कर रहे हैं। पिछले 2 साल से कोरोनावायरस के कहर को देखते हुए यह कदम कंपनी के सफर में एक बड़ा मील का पत्थर है। यह निश्चित रूप से हमारी कंपनी और हमारे स्टेकहोल्डर्स के लिए गर्व का क्षण है, जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। एनएसई के मुख्य बोर्ड पर ट्रेडिंग से कंपनी की ज्यादा विजिबिलिटी होगी और हम सभी स्टेकहोल्डर्स को हार्ड

वैल्यू प्रदान कर सकेंगे। उन्होंने आगे कहा, 'हम फैशन इंडस्ट्री में 18 से अधिक वर्षों से हैं, और हमारी विश्वसनीय ब्रांड 'जयपुर कुर्ती डॉट कॉम' ने अपने ग्राहकों को उनके अनुसार सबसे आधुनिक डिजाइन और बढ़िया क्वालिटी के एथनिक वियर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और हम आगे भी सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता पर खरा उतरना जारी रखेंगे।' एक्सपेंशन पर टिप्पणी करते हुए, अनुज मुंघडा ने आगे कहा, 'हम वर्ष 2023 के अंत तक रिटेल स्टोर्स की कुल संख्या को 20-25 तक ले जाने की ओर काम कर रहे हैं और इस श्रृंखला में कुछ महीने पहले 2 ऑफलाइन स्टोर पहले ही खोले जा चुके हैं। नंदनी क्रिएशन लिमिटेड के ऑफलाइन एक्सपेंशन के लिए राजस्थान के प्रमुख शहरों का चयन किया जा चुका है जिसमें, कोटा, सीकर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, नीमराना और अलवर शामिल हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23, नंदनी क्रिएशन लिमिटेड पुणे, गुडगांव, इंदौर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों पर भी अपने स्टोर्स खोलेगा।'

BULK DEALS IN BSE

Table with columns: Security Name, Client Name, Deal Type, Quantity, Price. Lists various bulk deals in BSE.

कार्यालय अधीक्षक उद्यान सार्वजनिक निर्माण विभाग, रामनिवास बाग, जयपुर

Table with columns: क्र. सं., विवरण, अनुमानित राशि (लक्षों में), निर्दिष्ट शुल्क. Lists public works items and their estimated costs.

टाटा पावर की इकाई को मध्य प्रदेश में 330 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना का ठेका मिला नई दिल्ली। टाटा पावर ने कहा कि की उसकी पूर्ण अनुबंधी इकाई टीपी सौर्या को मध्य प्रदेश में 330 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना लगाने को लेकर रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लि. से अनुबंध पत्र मिला है।

TIJARIA टिजारिया पॉलीपाइप्स लिमिटेड. CIN: L25209RJ2006PLC022828. पंजीकृत कार्यालय: SP-12316 सौराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्र, रामचंद्रपुर साँपपुरा एक्सटेंशन, जयपुर-302022. 15वीं वार्षिक साधारण सभा एवं रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी एवं बुक क्लोजर की सूचना.

एच आर बी फ्लोरीकल्चर लिमिटेड. CIN: L01300RJ1995PLC009541. पंजीकृत कार्यालय: ए-28, राम नगर, शाही नगर, जयपुर-302016. कंपनी सदस्यों के लिए 26वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना.

KG PETROCHEM LIMITED. CIN: L24117RJ1980PLC001999. Registered Office: C-171, Road No.9J, V.K.I. Area, Jaipur Rajasthan-302013. INFORMATION REGARDING 41st ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS.